



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1978/फाल्गुन 26, 1899

No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1978/PHALGUNA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. क. नि. 175(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम
8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार
के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 161/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख

18 जून, 1977 को अधिस्तन्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 33क के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित, अर्थात्, प्रसारण दूरदर्शन अभिग्राही सैट, रेडियो (जिसके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर भी हैं), ग्रामोफोन (जिसके अन्तर्गत रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेइंग डेक और रिकार्ड बदलने वाले डेक भी हैं), टेप रिकार्डर (जिसके अन्तर्गत कैसट रिकार्डर और टेप डेक भी हैं) और टेप प्लेयर (जिसके अन्तर्गत कैसट प्लेयर भी हैं) में से किन्हीं दो या अधिक के किसी संयोजन को, उस पर उत्प्रेषणीय, यथास्थिति, उक्त उत्पाद-शुल्क से जितना, या सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन ऐसे अतिरिक्त शुल्क से जो प्रसारण दूरदर्शन अभिग्राही सैटों, रेडियो (जिसके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर सैट भी हैं), ग्रामोफोन (जिसके अन्तर्गत रिकार्ड, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेइंग डेक और रिकार्ड बदलने वाले डेक भी हैं), टेप रिकार्डर (जिसके अन्तर्गत कैसट रिकार्डर और टेप डेक भी हैं) या टेप प्लेयर (जिसके अन्तर्गत कैसट प्लेयर भी हैं) जैसे भी स्थिति हो, जिनका प्रयोग उक्त संयोजन के विनिर्माण या समुच्चयन में किया जाता है पहले ही दिया जा चुका है, छूट देती है।

[82/78]

आर. के. चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1978

Central Excises

G.S.R. 175(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 161/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts any combination of two or more of the following, namely, broadcast television receiver sets, radios (including transistor sets), gramophones (including record players, record playing decks and record changing decks), tape recorders (including cassette recorders and tape decks) and tape players (including cassette players), falling under Item No. 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise, or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, already paid on broadcast television receiver sets, radios (including transistor sets), gramophones (including record players, record playing decks and record changing decks), tape recorders (including cassette recorders and tape decks) or tape players (including cassette players), as the case may be used in the manufacture or assembly of the said combination.

[82/78]

R. K. CHANDRA, Under Secy.